



क्या परमेश्वर ने यही सब चाहा था?



आप चाहे कोई भी अखबार उठाकर पढ़ें, टीवी देखें या रेडियो सुनें, हर कहीं आपको आतंकवाद, लड़ाइयों और जुर्म की खबरें सुनने को मिलेंगी! आप खुद अपनी ही परेशानियों को देख लीजिए। आप शायद किसी बीमारी की वजह से या अपने किसी अज़ीज़ की मौत की वजह से बहुत मायूस हों। हो सकता है कि आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा सदियों पहले अय्यूब नाम के एक नेक इंसान ने महसूस किया था। उसने कहा कि 'मैं पीड़ा से भरा हुआ हूँ।'—अय्यूब 10:15, *ईज़ी-टू-रीड वर्शन*।

खुद से पूछिए:

- क्या परमेश्वर ने मेरे और बाकी इंसानों के लिए यही सब चाहा था?
- अपनी समस्याओं का सामना करने में मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है?
- क्या हम इंसान उम्मीद कर सकते हैं कि कभी इस धरती पर शांति होगी?

वाइबल इन सवालों के बिलकुल सही जवाब देती है और ये जवाब दिल को राहत पहुँचाते हैं।



बाइबल सिखाती है कि
परमेश्वर धरती के हालात बदल देगा
और यह सब करेगा।

“वह उन की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा;
और इस के बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक,
न विलाप, न पीड़ा रहेगी।”


—प्रकाशितवाक्य 21:4


“लंगड़ा हरिण की
सी चौकड़िया भरेगा।”

—यशायाह 35:6


“अन्धों की आंखें
खोली जाएंगी।”

—यशायाह 35:5






“जितने कब्रों में हैं, . . . निकलेंगे।”
—यूहन्ना 5:28, 29



“कोई निवासी न कहेगा
कि मैं रोगी हूँ।”
—यशायाह 33:24




“देश में पहाड़ों की चोटियों पर
बहुत सा अन्न होगा।”
—भजन 72:16

बाइबल जो सिखाती है उससे फायदा पाइए

इस किताब के पहले कुछ पन्नों में जो बताया गया है उन्हें सिर्फ खयाली बातें समझकर दर-किनार मत कीजिए। यह परमेश्वर का वादा है कि वह ऐसे हालात ज़रूर लाएगा, और बाइबल खुलकर बताती है कि वह यह सब कैसे करेगा।

मगर बाइबल सिर्फ भविष्य के इन्हीं वादों के बारे में नहीं बताती। वह यह भी समझाती है कि आज मुसीबतों से भरी इस दुनिया में भी ज़िंदगी में सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। एक पल के लिए ज़रा अपनी चिंताओं और परेशानियों के बारे में सोचिए। हो सकता है, आप पैसे की तंगी झेल रहे हैं, आपके परिवार में समस्याएँ हैं, आपकी सेहत खराब रहती है या फिर मौत ने आपके किसी अपने को आपसे छीन लिया है। बाइबल आज ऐसी समस्याओं का सामना करने में आपकी मदद कर सकती है और इन सवालों का जवाब देकर आपको राहत पहुँचा सकती है, जैसे:



- हम पर दुःख-तकलीफें क्यों आती हैं?
- हम ज़िंदगी की चिंताओं का सामना कैसे कर सकते हैं?
- हम अपने परिवार को सुखी कैसे बना सकते हैं?
- मरने पर हमारा क्या होता है?
- क्या हम कभी अपने उन अज़ीजों को दोबारा देख पाएँगे जो मर चुके हैं?
- हम कैसे पूरा भरोसा रख सकते हैं कि भविष्य के बारे में परमेश्वर अपने सारे वादे ज़रूर पूरे करेगा?

इस किताब को पढ़ना ही यह दिखाता है कि आप जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है। यह किताब बाइबल के बारे में सीखने में आपकी मदद करेगी। ध्यान दीजिए कि हर पन्ने के निचले हिस्से में पैराग्राफों पर सवाल दिए गए हैं। सवाल-जवाब के इस तरीके से लाखों लोगों ने यहोवा के साक्षियों के साथ बाइबल पर दिलचस्प और मज़ेदार चर्चाएँ की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऐसी चर्चाएँ अच्छी लगेंगी। इस किताब की मदद से जब आप सीखेंगे कि बाइबल *असल* में क्या सिखाती है, तो हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। साथ ही, हम जानते हैं कि ये बातें सीखकर ज़रूर आपको बेइतिहा खुशी और सच्चा सुख मिलेगा!

अपनी बाइबल को अच्छी तरह जानिए

बाइबल कुल 66 छोटी-बड़ी किताबों और पत्रियों (या खतों) से बनी है। इन किताबों में कई अध्याय हैं और इन अध्यायों को भी छोटे-छोटे हिस्सों यानी आयतों में बाँटा गया है। इससे बाइबल के किसी भी भाग का हवाला देने में आसानी होती है। इस किताब में बाइबल से जो हवाले दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले बाइबल की किसी किताब या पत्री का नाम आता है, उसके बाद की संख्या उस किताब का अध्याय है और उसके बाद की संख्या आयत है। मिसाल के लिए, जब यह हवाला दिया गया हो, “2 तीमुथियुस 3:16” तो इसका मतलब है, तीमुथियुस की दूसरी पत्री, उसका तीसरा अध्याय और सोलहवीं आयत।

इस किताब में दिए हवालों को खोलकर बाइबल से पढ़िए। ऐसा करने से आप कुछ ही वक़्त में धीरे-धीरे जानने लगेंगे कि बाइबल की कौन-सी किताब कहाँ है। इसके अलावा, क्यों न आप हर रोज़ बाइबल पढ़ने का एक कार्यक्रम शुरू करें? अगर आप एक दिन में तीन से पाँच अध्याय पढ़ेंगे, तो एक साल में पूरी बाइबल पढ़ लेंगे।

